

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 19 और 22 मई को आउटडोर टेनिस, पिकलबॉल कोर्ट और पील विलेज गोल्फ कोर्स दुबारा खोल रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 मई, 2020) – ओनटैरियो (Ontario) सरकार की इस घोषणा के बाद कि कुछ रेक्रिएशनल सुविधाओं को दुबारा खोला जा सकता है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, मंगलवार 19 मई को अपनी आउटडोर टेनिस और पिकलबॉल कोर्ट, और शुक्रवार, 22 मई को पील विलेज गोल्फ कोर्स (Peel Village Golf Course) दुबारा खोल रही है। सभी आगंतुकों और सिटी के स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, शारीरिक दूरी और सफाई करने जैसे उपाय लागू किए जाएंगे।

आउटडोर टेनिस और पिकलबॉल कोर्ट

सिटी, मंगलवार, 19 मई को अपनी 21 टेनिस और सात पिकलबॉल कोर्ट दुबारा खोलेगी। ये कोर्ट, सोमवार से रविवार तक खुली रहेंगी। सुबह 11 बजे से पहले, कोर्ट केवल बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होंगी।

शारीरिक दूरी जैसे उपायों का पालन करते हुए, कोर्ट में एक बार में, दो से अधिक खिलाड़ियों की अनुमति नहीं होगी, नेट के हर तरफ एक-एक खिलाड़ी होगा। खिलाड़ियों को हमेशा दूसरों से दो मीटर (छह फुट) दूर रहना होगा। जो खिलाड़ी शारीरिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा जाएगा।

हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीचे दिए नियम लागू किए गए हैं:

- कोर्ट में जो पहले आएगा, उसे पहले मौका दिया जाएगा। यदि दूसरे खिलाड़ी प्रतीक्षा में हों तो उन्हें 60 मिनट के बाद खेलना बंद करना होगा
- रैकेट या अन्य उपकरण दूसरों से साझा न करें
- गेंदों पर साफ शब्दों में खिलाड़ी का नाम लिखा होना चाहिए, ताकि दूसरे उन्हें गलती से न उठाएं
- इस समय आउटडोर वॉशरूम उपलब्ध नहीं हैं (जहां सुविधाएं मौजूद हैं)
- दर्शकों के आने की अनुमति नहीं है

टेनिस या पिकलबॉल कोर्ट ढूँढने के लिए, www.brampton.ca/parks पर जाएं। किसी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए, 311 पर फोन करें।

पील विलेज गोल्फ कोर्स

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, शुक्रवार 22 मई को, 29A हार्टफोर्ड ट्रेल (29A Hartford Trail) पर स्थित, पील विलेज गोल्फ कोर्स को दुबारा खोलेगी। यदि मौसम ठीक रहेगा तो कोर्स रोज़ाना सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा। बुजुर्गों के लिए समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है।

शारीरिक दूरी जैसे उपायों का पालन करते हुए, खिलाड़ियों को हमेशा दूसरों से दो मीटर (छह फुट) दूर रहना होगा। जो खिलाड़ी शारीरिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा जाएगा।

गोल्फ कोर्स में हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सिटी अतिरिक्त सावधानियां बरत रही है, जिनमें शामिल हैं:

- पूरे कोर्स में हैंडवाशिंग स्टेशन और हैंड सैनिटाइज़र प्रदान करना
- पार्किंग लॉट और क्लबहाउस में सुरक्षित रूप से आने-जाने को सुनिश्चित करने के लिए, गोल्फ खिलाड़ियों के लिए छपे हुए स्टिकर और दिशा संबंधी साइन बोर्ड लगाना
- हर टी टाइम के लिए दो खिलाड़ी और हर गोल्फ कार्ट के लिए एक खिलाड़ी तक की सीमा
- टी ऑफ समय के बीच में अंतराल को बढ़ाकर 20 मिनट तक करना
- सुविधाओं की अधिक बार सफाई लागू करना, गोल्फ कार्टों और बाथरूम के लिए रोगाणु मुक्त करने के प्रोग्राम सहित
- “बिना छुए खेलने” को सुनिश्चित करने के लिए बंकर रेक्स को हटाना और गोल्फ कप्स को ऊपर उठाना
- सिटी के शारीरिक दूरी जैसे प्रयासों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोर्स में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करना

इस समय, गोल्फ कोर्स में ग्रुप रिजर्वेशन नहीं किए जाएंगे, टूर्नामेंट आयोजित नहीं होंगे या प्रशिक्षण वाले प्रोग्राम पेश नहीं किए जाएंगे।

निवासियों से अनुरोध है कि वे 905.874.2995 पर फोन करके पहले से ही टी टाइम्स बुक कर लें। भुगतान वहां पहुंचने पर, वहीं किया जा सकता है। फोन लाइनें, मंगलवार, 19 मई से दोपहर बाद 1 बजे खुल रही हैं। बिना बुकिंग से सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे अपने तय किए टी टाइम से अधिक से अधिक 15 मिनट पहले ही पहुंचें और सीधे क्लबहाउस के रिसेप्शन वाले क्षेत्र में जाएं। पाबंदियां लागू हैं, इसलिए कम किया गया रेट उपलब्ध होगा। गोल्फ कोर्स में ड्रेस कोड लागू है।

क्लबहाउस और रिटेल आउटलेट बंद रहेंगे। पुल कार्ट और क्लब के अन्य उपकरण, किराए पर लेना, अगले नोटिस तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। खिलाड़ियों के लिए खेलने से पहले और खेलने के बाद, आउटडोर वॉशरूम उपलब्ध हैं। इस समय भोजन और पेय पदार्थ खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। खिलाड़ी अपना खुद का पानी और बिना अल्कोहल वाले पेय पदार्थ अपने साथ ला सकते हैं।

पील विलेज गोल्फ कोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के स्वामित्व वाला और सिटी द्वारा संचालित, नौ-सुराखों वाला पब्लिक गोल्फ कोर्स है। COVID-19 संबंधी उपायों और सावधानियों के पूरे विवरणों सहित, खेलने की बुकिंग कराने की पूरी गाइड www.brampton.ca/peelvillagegolf पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

सिटी को दुबारा खोलने और बहाली की और योजनाओं के बारे में, सिटी समुदाय से सुझाव मांग रही है

मेयर के रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप (Reopening and Recovery Working Group) ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को शामिल करना शुरू किया है कि सिटी को दुबारा खोलने की योजना, जनता और स्टाफ की सेवा और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। इसमें, विशेष उपयोगकर्ता समूहों, कारोबारियों और सामुदायिक समूहों के साथ कई प्रकार के परामर्श शामिल होंगे। इस सप्ताह, सिटी ने स्पोर्ट्स समूहों के साथ मीटिंग आयोजित की और अगले सप्ताह बुजुरग समूहों के साथ मशविरा किया जाएगा। ब्रैम्पटन के समुदाय को भी, एक सर्वेक्षण, जो [यहां ऑनलाइन उपलब्ध है \(available online here\)](#) में हिस्सा लेकर या covid19reopencity@brampton.ca पर ईमेल द्वारा जुड़कर, अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सिटी द्वारा COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए किये जाने वाले प्रयासों को बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

हवाले

“चूंकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारी सिटी के गोल्फ कोर्स सहित अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, हम ऐसा बेहद सावधानी के साथ कर रहे हैं, जिसमें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। स्वस्थ और सुरक्षित सिटी होने के तौर पर, हम निवासियों को क्रियाशील जीवनशैली कायम रखते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं। हम इन सेवाओं को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने के लिए सारे जरूरी कदम उठा रहे हैं, जिन सेवाओं पर निवासी निर्भर हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस सप्ताह सिटी के रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप ने सीधे सिटी के स्पोर्ट्स समूहों की राय ली। सिटी की कोर्टों और गोल्फ कोर्स को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने के सुझावों पर काम करते हुए हमें खुशी हो रही है। इस मुश्किल समय में हम सारे एक साथ हैं और हम सिटी की सेवाओं को दुबारा शुरू करने और हमारी सिटी को दुबारा खोलने में, लगातार पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन करेंगे।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप

“सिटी की सेवाओं और फैसिलिटीज की सुरक्षा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और हमारे स्टाफ की मुख्य प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए, लगातार सारे जरूरी कदम उठाएंगे कि हम सिटी की सेवाओं को जनता के लिए, जिम्मेदार और सुरक्षित तरीके से दुबारा खोल रहे हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca